



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]

No. 28]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 2003/पौष 30, 1924

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 20, 2003/PAUSA 30, 1924

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

(नारियल विकास बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2003

सा.फा.नि. 38(अ).— नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा

20 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नारियल विकास बोर्ड (सहायक विपणन अधिकारी, केमिस्ट, ड्राइवर ग्रेड - I, मशीन ऑपरेटर, धिक्की सहायक, हैंड्री मैन और हेल्पर) भर्ती विनियम, 1984 को, जहां तक उनका संबंध सहायक विपणन अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने से लोप किया गया है, नारियल विकास बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पिछली स्वीकृति के साथ, एतद्वारा नारियल विकास बोर्ड भर्ती विनियम, 1984 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का नाम नारियल विकास बोर्ड भर्ती (संशोधन) विनियम, 2003 होगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नारियल विकास बोर्ड भर्ती विनियम, 1984 की अनुसूची में :-

(क) निदेशक, उप निदेशक (विकास), उप निदेशक (विपणन), सहायक निदेशक, विपणन अधिकारी और सांख्यिकीय अधिकारी के पदों से सम्बन्धित क्रम संख्या 1 से 6 तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्याएं एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6

1. निदेशक 3* 10,000 -325 -
(2003) 15,200 रुपये चयन 45 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार
द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के
अनुसार सरकारी कर्मचारियों और नारियल
विकास बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों
तक शिथिल की जा सकती है) । नहीं

टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का तद्वत्त खिबीजन, हिमाचल प्रदेश का लहाल और स्थिति जिला तथा चम्पा जिले का पांगी सब-डिवीजन, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह या सशस्त्रीय में रहने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख नहीं होगी) ।

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित
आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा
में लागू होंगी न नहीं

परिवीक्षा की अवधि
यदि कोई हो

7

8

9

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी/कृषि/
पौध विज्ञानों (वृक्ष वाली फसलों के रोपण सम्बन्धी
कार्यानुभव सहित) में स्नातकोत्तर डिग्री या
समकक्ष अर्हता।

(ii) नारियल की फसल के विशेष संदर्भ में कृषि
विकास सम्बन्धी कार्य में जिम्मेदार हैसियत
में दस वर्ष का अनुभव (जिसमें से केन्द्रीय सरकार
के तहत समूह 'क' पर 5 वर्षों का अनुभव हो
या इसके समतुल्य)।

वांछनीय :

नारियल की फसल से सम्बन्धित कृषि/बागवानी/
पौध विज्ञानों में ग्रादुएट डिग्री।

सीधी भर्ती के लिए
एक वर्ष।

आयु : नहीं
शैक्षिक अर्हताएं : नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रौन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

10

11

50 प्रतिशत प्रौन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रौन्नति :

सामान्य वरिष्ठता के आधार पर, सम्बन्धित ग्रेडों में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले उप-निदेशक (विकास) और उप-निदेशक (विपणन) ।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुवन्ध सहित) :-

केन्द्रीय/राज्य सरकारों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/ केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन अनुसंधान संस्थानों/ कृषि विश्वविद्यालयों/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के वे अधिकारी, जो -

(क) (i) नियमित आधार पर समान पदों पर कार्यरत हैं ; अथवा

(ii) जिन्होंने 8000-13500 रुपये के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 5 वर्षों तक नियमित सेवा की हो ; और

यदि कोई विभागीय प्रौन्नति समिति है तो उसकी संरचना

12

विभागीय प्रौन्नति समिति की संरचना -
1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष
2. कृषि और सहकारिता विभाग - सदस्य
का एक ऐसा अधिकारी जो
भारत सरकार के उप सचिव
से कम रैंक का न हो ।

3. मुख्य नारियल विकास
अधिकारी

4. अनुसूचित जाति अथवा
अनुसूचित जनजाति समुदाय
से सम्बद्ध बोर्ड का समुचित
प्रास्थिति का अधिकारी

अथवा उसकी अनुपस्थिति
में केन्द्रीय सरकार के
स्थानीय कार्यालय का
कोई अधिकारी ।

(ख) जो कालम - 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों :-

(उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य काष्ठर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबन्ध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पणी :- नारियल विकास बोर्ड के स्थापना प्रभाग में अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6

2. उप-निदेशक (विकास)	10* (2003)	10000 -325 - 15200 रुपये	चयन	45 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और नारियल विकास बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों तक शिथिल की जा सकती है ।	नहीं
-------------------------	---------------	-----------------------------	-----	---	------

टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अस्थायियों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पिति जिला तथा चम्पा जिले का प्रांगी सब-डिवीजन, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख नहीं होगी) ।

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित
आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रौद्योगिक व्यक्तियों की दशा
में लागू होगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि
यदि कोई हो

7

8

9

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी/
कृषि/पौध विज्ञानों (वृक्ष वाली फसलों के रोपण
सम्बन्धी कार्य अनुभव सहित) में स्नातकोत्तर
डिग्री या समकक्ष अर्हता ।

(ii) नारियल की फसल के विशेष सन्दर्भ में कृषि
विकास में जिम्मेदार हैसियत में सात वर्ष का
अनुभव (जिसमें से केन्द्रीय सरकार के तहत
समूह 'क' घट पर पाँच वर्ष का अनुभव हो या
इसके समतुल्य)

आयु : नहीं

शैक्षिक अर्हताएं : जैसा कि कॉलम 11 में निर्दिष्ट है

2 वर्ष

मर्ती की पद्धति : मर्ती सीधे होगी या प्रौन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

10

50 प्रतिशत प्रौन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा 50 प्रतिशत सीधी मर्ती द्वारा ।

वे श्रेणियाँ जिनसे प्रौन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/अल्पकालिक अनुवन्ध/पुनःरोजगार किया जाएगा

यदि कोई विभागीय प्रौन्नति समिति है तो उसकी संरचना

11

12

प्रौन्नति :

उसी ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक निदेशक जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि/वागवानी/पौध विज्ञानों में डिग्री अथवा समकक्ष अर्हता रखता हो ।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुवन्ध सहित) :-

केन्द्रीय/राज्य सरकारों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन अनुसंधान संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालयों/स्वायत्त/सांविधिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के वे अधिकारी, जो -

(क) (i) नियमित आधार पर समान पदों पर कार्यरत हैं ; अथवा

(ii) जिन्होंने 8000-13500 रुपये के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 5 वर्षों तक नियमित सेवा की हो ; अथवा

(iii) जिन्होंने 6500-10500 रुपये के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 8 वर्षों तक नियमित सेवा की हो ; और

विभागीय प्रौन्नति समिति की संरचना -

1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष
2. कृषि और सहकारिता विभाग - सदस्य
का एक ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के उप सचिव से कम रैंक का न हो ।

3. मुख्य नारियल विकास अधिकारी - सदस्य

4. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय से सम्बद्ध बोर्ड का समुचित प्रास्थिति का अधिकारी - सदस्य

अथवा उसकी अनुपस्थिति में केन्द्रीय सरकार के स्थानीय कार्यालय का कोई ऐसा अधिकारी ।

(ख) जो कालम - 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों :-

(उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य काबू बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबन्ध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पणी :

नारियल विकास बोर्ड के स्थापना प्रमाण में अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
3. उप-निदेशक (विपणन)	2* (2003)	10000-325 - 15200 रुपये	चयन	45 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और नारियल विकास बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों तक शिथिल की जा सकती है ।	नहीं

टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पिति जिला तथा चम्पा जिले का पांगी सब-डिवीजन, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख नहीं होगी) ।

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित परिवीक्षा की अवधि अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त व्यक्तियों की दशा यदि कोई हो में लागू होगी या नहीं

9

8

7

अनिवार्य :

2 वर्ष

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि/बागवानी आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : जैसा कि कॉलम 11 में निर्दिष्ट है

(ii) कृषि जिसों के विपणन/प्रसंस्करण तथा मण्डी आसूचना/मण्डी सर्वेक्षण और मण्डी संवर्धन कार्यकलापों में जिम्मेदार हैसियत में सात वर्ष का अनुभव (जिसमें से केन्द्रीय सरकार के तहत समूह 'क' पद पर 5 वर्ष का अनुभव हो या इसके समतुल्य)

वांछनीय :

(i) मण्डी विकास और विपणन सर्वेक्षण आयोजित करने का अनुभव ।

(ii) विपणन में डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा !

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

10

50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/अल्पकालिक अनुबन्ध/पुनः रोजगार किया जाएगा

11

प्रोन्नति :

उसी ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले विपणन अधिकारी ।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबन्ध सहित) :-

केन्द्रीय/राज्य सरकारों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन अनुसंधान संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालयों/स्वायत्त/सांविधिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के वे अधिकारी, जो -

(क) (i) नियमित आधार पर समान पदों पर कार्यरत हैं ; अथवा

(ii) जिन्होंने 8000-13500 रुपये के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 5 वर्षों तक नियमित सेवा की हो ; अथवा

(iii) जिन्होंने 6500-10500 रुपये के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 8 वर्षों तक नियमित सेवा की हो ; और

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

12

विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना -

1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष
2. कृषि और सहकारिता विभाग - सदस्य का एक ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के उप सचिव से कम रैंक का न हो ।

3. मुख्य नारियल विकास अधिकारी - सदस्य

4. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय से सम्बद्ध बोर्ड का समुचित प्रास्थिति का अधिकारी - सदस्य

अथवा उसकी अनुपस्थिति में केन्द्रीय सरकार के स्थानीय कार्यालय का कोई ऐसा अधिकारी ।

(ख) जो कालम - 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों :-
 (उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य कांवर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी।
 प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबन्ध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी :

नारियल विकास बोर्ड के स्थापना प्रभाग में अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6

4. सहायक निदेशक	6* (2003)	8000 - 275 - 13500 रुपये	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और नारियल विकास बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों तक शिथिल की जा सकती है) ।	नहीं
--------------------	--------------	-----------------------------	-----	--	------

टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागातैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का तदाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्थिति जिला तथा चम्पा जिले का पांगी सब-डिवीजन, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख नहीं होगी) ।

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रौत्रत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
--	--	------------------------------

7

8

9

अनिवार्य :

आयु : नहीं

2 वर्ष

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वागवानी/कृषि/पौध विज्ञानों (वृक्ष वाली फसलों के रोपण सम्बन्धी कार्यानुभव सहित) में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष अर्हता।

शैक्षिक अर्हताएं : जैसा कि कालम 11 में निर्दिष्ट है।

(ii) नारियल विकास परियोजनाओं के प्रतिपादन और कार्यान्वयन में जिम्मेदार हैसियत में छः वर्ष का अनुभव।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

10

वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/अल्पकालिक अनुवन्ध/पुनःरोजगार किया जाएगा

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

11

12

50:50 के अनुपात में प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति :

उसी ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले फार्म मैनेजर (6500 - 10500 रुपये) जो कृषि/वागवानी/पौध विज्ञानों में डिग्री रखते हों और प्रत्यार अधिकारी जो सामान्य बरिष्ठता सहित किसी विषय में डिग्री रखते हों

विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना -

1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष
2. कृषि और सहकारिता विभाग - सदस्य का एक ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के रुप सचिव से कम रैंक का न हो ।
3. मुख्य नारियल विकास अधिकारी - सदस्य
4. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय से सम्बद्ध बोर्ड का समुचित प्रास्थिति का अधिकारी अथवा उसकी अनुपस्थिति में केन्द्रीय सरकार के स्थानीय कार्यालय का कोई अधिकारी ।

टिप्पणी :- नारियल विकास बोर्ड भर्ती (संशोधन) विनियम, 2003 के प्रवर्तन की तारीख को 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ तकनीकी सहायक (विकास) के पदधारियों के नामों पर भी प्रौन्नति हेतु विचार किया जाएगा ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अधीन अनुज्ञेय है या न
1	2	3	4	5	6
5-विपणन अधिकारी	1* (2003)	8,000-275 - 13,500	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों और नारियल विकास बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) ।	नहीं

टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रौन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक:- कृषि / बागवानी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ विपणन में 2 वर्ष का अनुभव ।	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यताएं : नहीं	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/अत्यकालिक अनुबन्ध/पुनःरोजगार

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

10

11

12

50:50 के अनुपात में प्रोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति :- सहायक विपणन अधिकारी और सांख्यिकीय अधिकारी जिनकी अपनी श्रेणी में सामान्य वरिष्ठता के साथ 5 वर्ष की नियमित सेवा हो ।

विभागीय प्रोन्नति समिति में -

- (i) अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड-अध्यक्ष
- (ii) कृषि एवं सहकारिता विभाग का एक ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के उप सचिव से कम पद का न हो ।

टिप्पणी :- वरिष्ठ तकनीकी सहायक (विपणन) के पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले पदधारी भी, नारियल विकास बोर्ड भर्ती (संशोधन) अधिनियम, 2003 के लागू होने की तारीख पर प्रोन्नति के लिए विचारणीय होंगे ।

- (iii) मुख्य नारियल विकास अधिकारी - सदस्य

- (iv) उस बोर्ड के समुचित हैसियत का एक अधिकारी या जिनकी अनुपस्थिति में स्थानीय स्थित केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हो-सदस्य

पद का नाम	पद की संख्या	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
-----------	--------------	---------	------------------------	--	--

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

6-सांख्यिकी अधिकारी	1* (2003)	6500 -200 - 10,500	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अंनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों और नारियल विकास बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) ।	नहीं
------------------------	--------------	-----------------------	-----	---	------

टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी । (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

साधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रौन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
<p>आवश्यक:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से (i) कृषि सांख्यिकीय/सांख्यिकीय/गणित में स्नातकोत्तर डिग्री ।</p> <p>(ii) नारियल फसल से संबंधित कृषि अनुसंधान, विकास और/ या विपणन में सांख्यिकीय प्रणालियों के प्रयोग में उत्तरदायी क्षमता वाला 5 वर्ष का अनुभव ।</p> <p>(iii) कृषि सांख्यिकी के आंकड़े तैयार करने अधिमानतः जिस फसल और विकास तथा डाटाबेस के रख रखाव में प्रमाणिक अनुभव ।</p> <p>एच्छिक :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या समकक्ष से कम्प्यूटर अपलीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लामा ।</p>	<p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षिक योग्यताएं : जैसा स्तंभ 11 में निर्दिष्ट है ।</p>	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रान्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

10

वे श्रेणियाँ जिनसे प्रान्ति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/अल्पकालिक अनुबन्ध/पुनःरोजगार

यदि कोई विभागीय प्रौन्नति समिति है तो उसकी संरचना

11

प्रौन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रौन्नति :- सांख्यिकी अन्वेषक जिसने उसी ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा की हो ।

12

विभागीय प्रौन्नति समिति में -

- (i) अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड-अध्यक्ष
- (ii) कृषि एवं सहकारिता विभाग का एक ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के उप सचिव से कम पद का न हो ।

(iii) मुख्य नारियल विकास अधि-सदस्य

(iv) उस बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या जिनकी अनुपस्थिति में स्थानीय स्थित केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हो-सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अधीन अनुज्ञेय है या न
-----------	----------------	---------	------------------------	--	---

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

6क-सहायक विपणन अधिकारी	1* (2003)	6500-200 10,500	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों और नारियल विकास बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)।	नहीं
------------------------------	--------------	--------------------	-----	---	------

टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रौन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो

7

8

9

आवश्यक:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से (i) कृषि/ बागवानी/पौध विज्ञान में स्नातक डिग्री ।

(ii) विपणन में 2 वर्ष का अनुभव ।

एच्छिक :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से विपणन में डिप्लोमा ।

आयु : नहीं
शैक्षिक योग्यताएं :
जैसा स्तंभ
11 में
निर्दिष्ट है ।

2 वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रारंभिक द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

10

11

प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती

प्रोन्नति :- सहायक निरीक्षक/तकनीकी सहायक(विपणन) अधिकारी जिनकी अपनी श्रेणी में सामान्य वरिष्ठता के साथ 5 वर्ष की नियमित सेवा हो ।

टिप्पणी - सांख्यिकी अन्वेषक के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले पदधारी भी, नारियल विकास बोर्ड भर्ती (संशोधन) अधिनियम, 2003 लागू होने की तारीख पर प्रोन्नति के लिए विचारणीय होंगे ।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

12

विभागीय प्रोन्नति समिति में -
(i) अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड-अध्यक्ष
(ii) कृषि एवं सहकारिता विभाग का एक ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के उप सचिव से कम पद का न हो ।

(iii) मुख्य नारियल विकास अधिकारी - सदस्य

(iv) उस बोर्ड के समुचित हैसियत का एक अधिकारी या जिनकी अनुपस्थिति में स्थानीय स्थित केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हो-सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
9-प्रचार अधिकारी	1* (2003)	6500 -200 - 10,500	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों अथवा नारियल विकास बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) ।	नहीं

टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी । (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख नहीं ।)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रौद्योगिकीयों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
(i) किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि (ii) कृषि बागवानी या उससे जुड़े विषयों के क्षेत्र में तकनीकी रिपोर्ट के लेखन में 2 वर्ष का अनुभव	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यताएं : जैसा स्तंभ 11 में निर्दिष्ट है ।	2 वर्ष
एच्छक :-		
(i) पत्रकारिता/प्रचार/विज्ञापन में डिप्लोमा		
या		
बागवानी सेक्टर में प्रकाशन का 2 वर्ष का अनुभव		
(ii) हिन्दी का ज्ञान		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रात्रति द्वारा या प्रतिनियुक्ति मेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

10

वे श्रेणियाँ जिनसे प्रौत्रति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/अल्पकालिक अनुबन्ध/पुनःरोजगार

यदि कोई विभागीय प्रौत्रति समिति है तो उसकी संरचना

11

12

50:50 के अनुपात पर प्रौत्रति द्वारा और सीधी भर्ती द्वारा

प्रौत्रति:- सहसंपादक जिसने उसी ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा की हो और किसी भी विषय में उपाधि धारक हों ।

विभागीय प्रौत्रति समिति में -

- (i) अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड-अध्यक्ष
- (ii) कृषि एवं सहकारिता विभाग का एक ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के उप सचिव से कम पद का न हो ।

(iii) मुख्य नारियल विकास अधिकारी - सदस्य

(iv) उस बोर्ड के समुचित हैसियत का एक अधिकारी या जिनकी अनुपस्थिति में स्थानीय स्थित केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हो-सदस्य

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा

चयन पद अथवा अचयन पद

वेतनमान

पद का नाम पदों की संख्या

6

5

4

3

2

1

35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों और नारियल विकास बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) ।

चयन

6500 -200 -

10क-फार्म 3* (2003)

10,500

प्रबंधक

नहीं

टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी । (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रौत्रत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
<p>आवश्यक:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से बागवानी/ कृषि/पौध विज्ञान (पौध फसल के वृक्षारोपण में कार्यकारी अनुभव) में स्नातकोत्तर डिग्री ।</p> <p>(ii) नारियल से संबंधित फार्म में प्रबंधन में 3 वर्ष का अनुभव और केन्द्रीय/राज्य सरकारों या मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों या कृषि विश्वविद्यालयों/विख्यात वृक्षारोपण में अनुभव ।</p>	<p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षिक योग्यताएं : जैसा स्तंभ 11 में निर्दिष्ट है ।</p>	लागू नहीं होता

यदि कोई विभागीय प्रौन्नति समिति है तो उसकी संरचना

वे श्रेणियाँ जिनसे प्रौन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/अल्पकालिक अनुबन्ध/पुनःरोजगार

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रान्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

12

11

10

विभागीय प्रौन्नति समिति में -

प्रौन्नति :- वरिष्ठ तकनीकी सहायक (विकास)जिसने उसी ग्रेड में 3 वर्ष तक नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या समकक्ष से कृषि/बागवानी/पौध विज्ञान में उपाधि प्राप्त की हो ।

प्रतिनियुक्ति:-

केन्द्रीय/राज्य सरकार/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/केन्द्रीय राज्य सरकारों के अधीन अनुसंधान संस्थाओं/कृषि विश्व विद्यालयों/स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी जो :-

50 प्रतिशत प्रौन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

(i) अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड-अध्यक्ष
(ii) कृषि एवं सहायिता विभाग का एक ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के उप सचिव से कम पद का न हो ।
(iii) मुख्य नारियल विकास अधिकारी - सदस्य

(iv) उस बोर्ड के समुचित हैसियत का एक अधिकारी या जिनकी अनुपस्थिति में स्थानीय स्थित केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हो-सदस्य

क. (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

(ii) जो 5500-9000 रु० या समतुल्य वेतनमान में

में 3 वर्ष की नियमित सेवा किए हैं ।

(iii) जो 5000-8000/4500-7000 या समतुल्य में 8 वर्ष

तक नियमित सेवा किए हैं और

(ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है ।

10

11

12

(प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि, उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा समेत) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

टिप्पणी:- नारियल विकास बोर्ड स्थापना में कार्यरत अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

[फा. सं. 23/2001/प्रशासन/सी.डी.बी. फा. सं. 14-42/94-बागवानी 6]

डा. एच. पी. सिंह, अध्यक्ष

टिप्पणी: प्रमुख नियम 10 जनवरी, 1987 को जी.एस.आर. नं. 13(अ) के तहत अधिसूचित किए गए।

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)
(COCONUT DEVELOPMENT BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2003

G.S.R. 38(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 20 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979) and in supersession of the Coconut Development Board (Assistant Marketing Officer, Chemist, Driver Grade-I, Machine Operator, Sales Assistant, Handyman and Helper) Recruitment Regulations, 1994, in so far as they relate to the post of Assistant Marketing Officer except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Coconut Development Board, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Coconut Development Board Recruitment Regulations, 1984, namely:-

1.(1) These regulations may be called the Coconut Development Board Recruitment (Amendment) Regulations, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Coconut Development Board Recruitment Regulations, 1984,-

(a) for serial numbers 1 to 6 relating to the posts of Director, Deputy Director (Development), Deputy Director (Marketing), Assistant Director, Marketing Officer and Statistical Officer and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of the post	No of posts	Scale of pay	Whether Selection Post or Non- Selection Post	Age limits for direct recruits.
1	2	3	4	5
"1. Director	3* (2003) * subject to variation dependent on work load.	Rs. 10000-325-152000	Selection	Not exceeding 45 years (Relaxable for Government servants and employees of the Coconut Development Board up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government. Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
No	Essential: (i) Post Graduate Degree in Horticulture/Agriculture/Plant Sciences (with working experience of plantation tree crops) from a recognized University or equivalent;	Age : No Educational Qualifications : No	One year for direct recruits	50 per cent by Promotion which by deputation and 50 per cent by direct recruitment.

	(ii) Ten years experience in a responsible capacity (out of which 5 years experience in a Group A post under the Central Government or equivalent) in agricultural development with particular reference to coconut crop. Desirable: Doctorate Degree in Agriculture/Horticulture/Plant Sciences relating to coconut crop.				
Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short term contract/re-employment is to be made.	11	12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		
<u>Promotion:</u> Deputy Director (Development) and Deputy Director (Marketing) with 5 years regular service in the respective grades, on the basis of common seniority. <u>Deputation (including short term contract):</u> Officers of the Central/State Governments/Indian Council for Agricultural Research/Research Institutions under Central/State Governments/Agriculture Universities/Autonomous/Statutory Bodies/Public Sector Undertakings, holding (a) (i) analogous posts on a regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of pay of Rs.8000-13500 or equivalent; and (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. [Period of deputation including the period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.]	11	12.	The Departmental Promotion Committee consisting of - (i) Chairman, Coconut Development Board - Chairman (ii) An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture and Cooperation - Member (iii) Chief Coconut Development Officer - Member (iv) An Officer of appropriate status of the Board or in his absence an Officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe community - Member.		
Note.- Officers in the establishment of the Coconut Development Board shall not be eligible for deputation.					

1	2	3	4	5
2. Deputy Director (Development)	10* (2003) * subject to variation dependent on work load.	Rs.10000-325-15200	Selection	Not exceeding 45 years (Relaxable for Government servants and employees of the Coconut Development Board up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government. Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

6	7	8	9	10
No	(i) Post Graduate Degree in Horticulture/Agriculture/Plant Sciences (with working experience of plantation tree crops) from a recognized University or equivalent; (ii) Seven years experience in a responsible capacity (out of which 5 years experience in a Group A post under the Central Government or equivalent) in agriculture development with particular reference to coconut crop.	Age : No Educational Qualifications : As under column 11.	2 years	50 per cent by promotion failing which by deputation and 50 per cent by direct recruitment.

11	12.
<p><u>Promotion:</u></p> <p>Assistant Director with 5 years regular service in the grade, possessing a Degree in Agriculture/Horticulture/Plant Sciences from a recognized University or equivalent.</p> <p><u>Deputation (including short term contract):</u></p> <p>(a) Officers in the Central/State Governments/Indian Council for Agricultural Research/Research institutions under Central/State Governments/Agricultural Universities/Autonomous/Statutory Bodies and Public Sector undertakings holding -</p> <p>(a) (i) analogous post on a regular basis;</p> <p>(ii) with 5 years regular service in the scale of pay of Rs.8000-13500 or equivalent; or</p> <p>(iii) with 8 years regular service in the scale of pay of Rs.6500-10500 or equivalent; and</p> <p>(b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>[Period of deputation including the period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.]</p> <p>Note. - Officers in the establishment of the Coconut Development Board shall not be eligible for deputation.</p>	<p>The Departmental Promotion Committee consisting of -</p> <p>(i) Chairman, Coconut Development Board - Chairman</p> <p>(ii) An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture and Cooperation - Member</p> <p>(iii) Chief Coconut Development Officer - Member</p> <p>(iv) An Officer of appropriate status of the Board or in his absence an Officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe community - Member.</p>

1	2	3	4	5
3. Deputy Director (Marketing)	2* (2003) * subject to variation dependent on work load.	Rs. 10000-325-15200	Selection	Not exceeding 45 years (Relaxable for Government servants and employees of the Coconut Development Board up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government. Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

6	7	8	9	10
No	<p>Essential:</p> <p>(i) Post Graduate Degree in Agriculture/ Horticulture from a recognized University or equivalent.</p> <p>(ii) Seven years experience in a responsible capacity (out of which 5 years should be in a Group A post under the Central Government or equivalent) in Marketing/Processing of Agricultural Commodities and in Market Intelligence/Market Surveys and Market Promotion activities.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Experience in Market Development and organizing marketing surveys.</p> <p>(ii) Degree or P.G. Diploma in Marketing.</p>	Age : No Educational Qualifications: As under column 11.	2 years	50 per cent by promotion failing which by deputation and 50 per cent by direct recruitment.

11	12.
<p><u>Promotion:</u></p> <p>Marketing Officer with 5 years regular service in the grade.</p> <p><u>Deputation (including short term contract):</u></p> <p>(a) Officers in the Central/State Governments/Indian Council for Agricultural Research/Research institutions under Central/State Governments/Agricultural Universities/Autonomous/Statutory Bodies and Public Sector undertakings holding -</p> <p>(a) (i) analogous post on a regular basis;</p> <p>(ii) with 5 years regular service in the scale of pay of Rs 8000-13500 or equivalent; or</p> <p>(iii) with 8 years regular service in the scale of Rs 6500-10500 or equivalent; and</p> <p>(b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>[Period of deputation including the period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.]</p> <p>Note. - Officers in the establishment of the Coconut Development Board shall not be eligible for deputation.</p>	<p>The Departmental Promotion Committee consisting of -</p> <p>(i) Chairman, Coconut Development Board - Chairman</p> <p>(ii) An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture and Cooperation - Member</p> <p>(iii) Chief Coconut Development Officer - Member</p> <p>(iv) An Officer of appropriate status of the Board or in his absence an Officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe community - Member.</p>

1	2	3	4	5
4. Assistant Director	6* (2003) * subject to variation dependent on work load.	Rs. 8000-275-13500	Selection	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants and employees of the Coconut Development Board up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government. Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

6	7	8	9	10
No	<u>Essential</u> (i) Post Graduate Degree in Horticulture/Agriculture/ Plant Science (with working experience in plantation tree crops) from a recognized University or equivalent, (ii) Six years experience in a responsible capacity in the formulation and implementation of coconut development projects.	Age Educational Qualifications : As in column 11.	2 years	By Promotion and direct recruitment in the ratio of 50:50

11.	<p>Promotion:</p> <p>Farm Manager (6500-10500) with 5 years regular service in the grade, possessing a Degree in Agriculture/Horticulture/Plant Sciences and Publicity Officer with 5 years regular service in the grade, possessing a degree in any discipline with common seniority.</p> <p>Note: The incumbent holding the post of Senior Technical Assistant (Development) with 8 years regular service on the date of commencement of the Coconut Development Board Recruitment (Amendment) Regulations, 2003 also be considered for promotion.</p>
12.	<p>The Departmental Promotion Committee consisting of -</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Chairman, Coconut Development Board - Chairman (ii) An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture and Cooperation - Member (iii) Chief Coconut Development Officer - Member (iv) An Officer of appropriate status of the Board or in his absence an Officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe community - Member.

1	2	3	4	5
5. Marketing Officer	1* (2003) * subject to variation dependent on work load.	Rs. 8000-275-13500	Selection	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants and employees of the Coconut Development Board up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government. Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

6	7	8	9	10
No	<u>Essential:</u> Post Graduate Degree in Agricultural/Horticulture with 2 years experience in Marketing.	Age Educational Qualifications : No	2 years	By promotion and direct recruitment in the ratio of 50:50.

11	12.
<u>Promotion</u> Assistant Marketing Officer and Statistical Officer with 5 years regular service in the respective grade with common seniority. Note: The incumbent holding the post of Senior Technical Assistant (Marketing) with 8 years regular service on the date of commencement of the Coconut Development Board Recruitment (Amendment) Regulations, 2003 also be considered for promotion.	The Departmental Promotion Committee consisting of - (i) Chairman, Coconut Development Board - Chairman (ii) An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture and Cooperation - Member (iii) Chief Coconut Development Officer - Member (iv) An Officer of appropriate status of the Board or in his absence an Officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe community - Member.

1	2	3	4	5
6. Statistical Officer	1* (2003) * subject to variation dependent on work load	Rs. 6500-200-10500	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants and employees of the Coconut Development Board up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government. Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

6	7	8	9	10
No	<u>Essential</u> (i) Post Graduate Degree in Agriculture Statistics/Mathematics from a recognized University or equivalent. (ii) Five years experience in a responsible capacity in the application of statistical methods in agricultural research, development and/or marketing relating to the coconut crop; or (iii) Proven experience in bringing out data on agricultural statistics preferably in commodity crops and development and maintenance of database. <u>Desirable:</u> Post Graduate Diploma in Computer Application from a recognized University/Institution or equivalent.	Age Educational Qualifications : As in column 11.	2 years	By promotion, failing which by direct recruitment.

11	<p data-bbox="384 155 415 1970"><u>Promotion</u></p> <p data-bbox="415 155 478 1970">Statistical Investigator with 3 years regular service in the grade.</p>
12.	<p data-bbox="384 894 415 1024">The Departmental Promotion Committee consisting of -</p> <p data-bbox="415 894 744 1024"> (i) Chairman, Coconut Development Board – Chairman (ii) An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture and Cooperation – Member (iii) Chief Coconut Development Officer – Member (iv) An Officer of appropriate status of the Board or in his absence an Officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe community – Member. </p>

I	2	3	4	5
6A. Assistant Marketing Officer	1* (2003) * subject to variation dependent on work load.	Rs. 6500-200-10500	Selection	<p>Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants and employees of the Coconut Development Board up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government.</p> <p>Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

6	7	8	9	10
No	<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelor's Degree in Agriculture/Horticulture/Plant Sciences from a recognized University or equivalent</p> <p>(ii) 2 years experience in Marketing</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Diploma in Marketing from a recognized Institution/ University.</p>	Age: No Educational Qualifications: As in column 11	2 years	Promotion failing which by direct recruitment

11	<p>Promotion :</p> <p>Cooperative Inspector/Senior Technical Assistant (Marketing) with 3 years regular service in the respective grade with common seniority.</p> <p>Note: The incumbent holding the post of Statistical Investigator with 3 years regular service on the date of commencement of Coconut Development Board Recruitment (Amendment) Regulations, 2003 also be considered for promotion.</p>
12	<p>The Departmental Promotion Committee consisting of -</p> <p>(i) Chairman, Coconut Development Board - Chairman</p> <p>(ii) Chief Coconut Development Officer - Member</p> <p>(iii) An officer of the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture and Cooperation - Member</p> <p>(iv) An Officer of appropriate status of the Board or in his absence an Officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe community - Member.”</p>

- (b) serial number 4A relating to the post of Senior Farm Manager and the entries relating thereto shall be omitted;
- (c) for serial number 9 relating to the post of Publicity Officer and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

Name of the post	No of posts	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limits for direct recruits.
1	2	3	4	5
"9. Publicity Officer	1* (2003) * subject to variation dependent on work load.	Rs. 6500-200-10500	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants and employees of the Coconut Development Board up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government. Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Whether benefit of Added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
No	<u>Essential:</u> (i) Degree of a recognized University or equivalent in any discipline.	Age : No Educational Qualifications : As in column 11	2 years	By promotion and direct recruitment in the ratio of 50:50.

	<p>(ii) 2 years experience in writing technical reports in the field of Agriculture/ Horticulture or allied subject.</p> <p><u>Desirable:</u></p> <p>(i) Diploma in Journalism/Publicity/Advertising</p> <p>OR</p> <p>2 years Experience of Publication in Horticulture Sector.</p> <p>(ii) Knowledge of Hindi</p>		
--	--	--	--

Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/ short term contract/re-employment is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	
11	12.	
<u>Promotion:</u> Sub Editors with 3 years regular service in the grade and possessing a degree in any discipline.	The Departmental Promotion Committee consisting of -	
	(i)	Chairman, Coconut Development Board – Chairman
	(ii)	An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture and Cooperation – Member
	(iii)	Chief Coconut Development Officer – Member
	(iv)	An Officer of appropriate status of the Board or in his absence an Officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe community – Member.”;

(d) for serial number 10A relating to the post of Farm Manager and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

Name of the post	Number of posts	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limits for direct recruits.
1	2	3	4	5
"10A. Farm Manager	3* (2003) * subject to variation dependent on work load.	Rs. 6500-200-10500	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Govt. servants and employees of the Coconut Development Board up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government. Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other Qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
No	Essential: (i) Post Graduate Degree in Horticulture/ Agriculture/Plant Sciences (with working experience of plantation tree crops) from a recognized University or equivalent.	Age No. Educational Qualifications: As prescribed in column 11	Not applicable	50 per cent by promotion failing which by deputation and 50 per cent by direct recruitment.

(ii) Three years experience in Farm Management relating to coconut and experience in Labour Management under Central/State Governments or recognized Research Institutions or Agriculture Universities/reputed plantations.	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short term contract/re-employment is to be made.	11	<p>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition</p> <p>12.</p> <p>The Departmental Promotion Committee consisting of -</p> <p>(i) Chairman, Coconut Development Board – Chairman</p> <p>(ii) An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture and Cooperation – Member</p> <p>(iii) Chief Coconut Development Officer – Member</p> <p>(iv) An Officer of appropriate status of the Board or in his absence an Officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe community – Member.”;</p>
(ii) Three years experience in Farm Management relating to coconut and experience in Labour Management under Central/State Governments or recognized Research Institutions or Agriculture Universities/reputed plantations.	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short term contract/re-employment is to be made.	11	<p>Promotion:</p> <p>Senior Technical Assistant (Development) with 3 years regular service in the grade and possessing a Degree in Agriculture/Horticulture/Plant Science from a recognized University or equivalent.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers in the Central/State Governments/Indian Council for Agricultural Research/Research institutions under Central/State Governments/Agricultural Universities/Autonomous/Statutory Bodies and Public Sector undertakings holding -</p> <p>(a) (i) analogous post on a regular basis;</p> <p>(ii) with 3 years regular service in the scale of pay of Rs.5500-9000 or equivalent; or</p> <p>(iii) with 8 years regular service in the scale of Rs.5000-8000/4500-7000 or equivalent; and</p> <p>(b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>[Period of deputation including the period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.]</p> <p>Note. - Officers in the establishment of the Coconut Development Board shall not be eligible for deputation.</p>

[F. No. 23/2001/Admn/CDB/F.No. 14-42/94-Hort. VI]

H. P. SINGH, Chairman

Footnote : The principal rules were notified vide G.S.R. No. 13(E) on 10th January, 1984.